

### COSCO (INDIA) LIMITED

- (9) 2/8, Roop Nagar, Delhi 110007
- (c) +91-11-23843000
- · +91-11-23846000
- mail@cosco.in
- m www.cosco.in

Ref:- CHO/2024-25/BSE Date: 17th February, 2025

To.

The Manager (Listing),

Corporate Relationship Department,

The BSE Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

Ref.

: Cosco (India) Limited

Scrip Code

: 530545

Reg.

: Publication of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2024 pursuant to Regulation

of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015

### Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copy of the published Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31.12.2024 as got published in:

1. Pioneer dated 15.02.2025 (English daily)

2. Pioneer dated 15.02.2025 (Hindi daily)

(India)

Thanking you,

Yours sincerely,

For Cosco (India) Limited

Sudha Singh

(Company Secretary and Compliance officer)

CIN: L25199DL1980PLC010173

### PUBLIC NOTICE

On behalf of M/S MAXHEIGHTS TOWNSHIP & PROJECTS PVT, LTD having its registered office at 408, 4th floor, RG Trade Tower Netaji Subhash Place, Pitampura, Nev Delhi-110034, the general public is hereby informed that on the basis of application/ documents submitted by Smt. Rimpi isal W/o. Late Sh. Vikas Kumar Gupta R/O WZ-5A/13, Vishnu Park Chand Nagar, Tilak Nagar Delhi-110018, the Develope M/s. Maxheights Township & Projects Pvt Ltd is Substituting, in place of late Sh. Vikas Kumar Gupta, the name of following Class 1 Legal heirs of Late Sh. Vikas Kumar Gupta, qua allotment of Flat No. B-003, Ground Floor, Maxheights Metro View Apartments, Sector-35, Sonipat Haryana:

1. Rimpi Bansal (Wife) 2. Anaaya Gupta (Daughter) Saumya Gupta (Daughter)

If any person has any objection/claim or the said property or against the said substitution, they may file his/her claim/objection within 15 days to the company, and thereafter no objection/ claim will be entertained in this regard. Kshitij Sharda Advocate

(Refer Notes Below) .Total Income from Operations

Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items\*)
 Net Profit/(Loss) for the period

before tax(after Exceptional and/or Extra Ordinary items\*)

Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or

Total Comprehensive Income fo

Comprehensive Income(after tax)]

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited

Balance Sheet of the previous yea

Earning Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)

Extra Ordinary items)

6. Equity Share Capital

Date: 13.02.2025

ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1976PLC008036

Regd. Off.: Shop No. 37 Shanker Market, Connaught Place, Central Delhi, Janpath, Central Delhi, 110001

Telephone: 011-47366600, E-Mail: info@rotofidia.co.in, Website: www.rotoindia.co.in

Extract of Statement of Standalone Un-audited Financial Result For The Quarter Ended 31st December, 2024

-0.1

-0.1

360.13

(0.01)

The above results were reviewed by the Audit Commmittee and reviewed by the Board o Directors in their meeting held on 13th February, 2025.

These financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards 34 Interim Financial Reporting (Ind AS-34) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued

The company is principally engaged in Single Business segment Viz. Trading, there is no other reportable segment in terms of Ind AS-108 'Operating Segments'.

Previous period figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary, to conform to the period's classification.

under and other accounting principles generally accepted in India. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the unaudited standalone Financi Results for the quarter ended 31st December, 2024.

Quarter Year To date Corresponding Ended Figure 3 Months Ended (31.12.2024) in the previous

3.81

-4.45

-5.17

360.13

0.00

(0.01)

### PUBLIC NOTICE

Known to all that my client SH. RAM SHARAN & SMT.RAM SHREE owner of the PROPERTY NO. 43-A AND C-43, AREA 100 SQ. YDS, KHASRA NO. 24/15, VILLAGE HASTSAL, VIKAS NAGAR, BLOCK-C, NEW DELHI and Sh. Ram Sharan & Smt. Ram Shree Have Not Originals 1. Khatoni Ownership of 1. Sh. Ved Parkash Aggarwal 2. Sh. Laxmi Narain Bhatia 3. Sh. G.K. Gambhir & 4. Sh. Satvir Singh 2. Will in favour of Smt. Sharda Devi & Sh.Suraj Parkash Sharma, 3. Will in favour of Asresh kumar, 4. GPA and Will in favour of Ram Kishan, 6. Survivor of Sh. Karan Singh his legal heirs i.e. Sh. Pappu@ Jitender, 2. Sh. Anil & 3. Sh. Rajin der@ Sunli(Sons),7. Succession Certificate in favour of 1. Sh. Pappu@ Jitender, 2. Sh. Anil & 3. Sh. Rajin der@ Sunli(Sons),7. Succession Certificate in favour of 1. Sh. Pappu@ Jitender, 2. Sh. Anil & 3. Sh. Rajinder@ Sunli(Sons),7. Succession Certificate in favour of 1. Sh. Pappu@ Jitender, 2. Sh. Anil & 3. Sh. Rajinder@ Sunli And It is informed that any deal with said documents by any person except my said client and said institution regarding said property, shall be deemed as null and void, If any person having any claim, right in said property then he may contact and handover the same and apprise his claim to undersigned within 8 days of this publication. PUBLIC NOTICE This is to inform in general public that I, Babita Sharma W/o Anil Sharma Residing at: (1) 54-B, First Floor, Pocket-A, SFS Flats, Mayur Vihar st Floor, Pocket-A, SFS Flats, Mayur ase-3 (Area: 118 Sq. Mtr.), (2) 169/38, Bl Noida Sector-50, Uttar Pradesh - 201301 (Covered Area: 386.107 Sq. Mtr., Total Plot Area 250 Sq. Mtr.) Hereby declare that both the above 250 3d, Mil.) Preloy declare that both the above-mentioned properties are solely owned by me. Any person dealing, transacting, or entering into any agreement concerning these properties without my explicit consent shall do so at their own risk, and such dealings shall be considered null and void. The ownership rights will be ecided by my will after my death. For any Babita Sharma ntact and handover the same and apprise s claim to undersigned within 8 days of this

**Public Notice** 

documents through registered post or by visiting L&DO at Nirman Bhawan, New Delhi, or through an email at Ido@nic.in, within 30 days of publication of this notice.

S.S. Sobti, Advocate

New Delhi-110024

Phone: 9910040471

43.30

-6.83

-6.83

-6.07

-6.05

360.13

-0.17

(0.17) (0.17)

Kohli & Sohti Advocate

A-59A, First Floor, Lajpat Nagar-I

yea (31.12.2023)

-1.55

360.13

(0.04)

For ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED

General Public is hereby informed that my client, M/s. Muthoot Holidays Private Limited, having its Registered Office at 41/4108, Muthoot Chambers, Opp. Banerji Road, Kanayannur Taluk Ernakulam, Kerala-682018, has applied for the substitution/ mutation of Property No.E-7, Defence Colony, New Delhi-110024, in its name. If there are any objection/claim from the general public on this application, the same shall be communicated to 1.800 with supporting documents through registered post or by AD REM LEGAL SOLUTION Ch. No. 760 - Dwarka Court Sector-10, Dwarka, New Do Mobile :- 9899013918

## **PUBLIC NOTICE**

This Public Notice is from M/S JKG Construction Pvt Ltd for Mrs Maya Pradhan and Mr Arbind Pradhan bearing unit no. D-1301 at JKG Palm Court, Plot No. GH-01D, Sector 16C, Greater Noida West, Uttar

We have offered possession of your allotted unit in May 2021, basis which we have shared final demand notice of unit D-1301 on 23.11.2021 19.04.22, 19.05.2022, but you failed to make the payment as per fina demand notice. Hence we have cancelled your allotted unit via cancellation intimation letter dated 02.12.2022. And on your request we issued a fresh demand letter on 23.11.2024. But again you failed to make the payment within 2 weeks as per your commitment neither got any response from your end Which tantamount to your tacit acceptance that you are no more interested in taking possession of the said flat.

Hence your allotted flat is being cancelled as such the allotment has become null & void and you have no claim on the dwelling unit and your deposited amount shall be refunded as per BBA Claus

For M/S JKG Construction Pvt Ltd

# COSCO (INDIA) LIMITED

CIN: L25199DL1980PLC010173

Regd. Office: 2/8, Roop Nagar, Delhi-110 007 Website: www.cosco.in Email: mail@cosco.in Tel.: 91-11-23843000 Fax: 91-11-23846000

### EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE

	MONT	IS ENDER	) 31ST DE	CEMBER	2024						
	MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024										
SI.	Particulars	Quarter Ended Nine Months Ended					articulars Quarter Ended			Year Ended	
No.		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024				
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
1	Total Income from operations	4,097.44	3,830.53	4,066.23	12,819.08	12,802.54	17,749.68				
2	Net Profit for the period before Tax	45.30	28.21	110.18	289.29	355.59	469.06				
3	Net Profit for the period after tax	36.36	19.88	115.27	209.40	235.43	320.79				
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	35.15	20.48	116.02	209.40	237.68	325.14				
5	Equity Share Capital	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10				
6	Other Equity						4,564.57				
7	Earnings Per Share (of ₹10 each)										
(a)	Basic (₹)	0.87	0.48	2.77	5.03	5.66	7.71				
(b)	Diluted (₹)	0.87	0.48	2.77	5.03	5.66	7.71				

### Notes: -

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financia Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com/corporates) and on the Company's website

2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on February 13,2025.



Place : Delhi

Date: 13.02.2025

By Order of the Board for Cosco (India) Limited Devinder Kumar Jain

Managing Director and CEO DIN: 00191539

(Rs. in Lakhs)

**SUNIL HEALTHCARE LIMITED** Registered Office



AJAY BHADRI

38E/252-A, Vijay Tower, Shahpurjat New Delhi-110049 Email: info@sunilhealthcare.com; website: www.sunilhealthcare.com

CIN No. L24302DL1973PLC189662

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended on 31st December 2024

		Standalone					Consolidated						
	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended Year Ended		Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
S.No.		31st December 2024	30th September 2024	31st December 2023	31st December 2024	31st December 2023	31st March 2024	31st December 2024	30th September 2024	31st December 2023	31st December 2024	31st December 2023	31st March 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2,101.47	2,045.10	2,564.34	6,306.51	7,249.96	9,438.38	2,099.47	2,043.42	2,579.91	6,306.58	7,341.80	9,541.24
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,Exceptional and/or Extraordinary items)	10.69	6.75	(55.92)	23.08	(293.08)	(288.04)	(34.04)	(51.32)	(39.11)	(150.04)	(272.13)	(255.51)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.69	6.75	(55.92)	23.08	(293.08)	(288.04)	(34.04)	(51.32)	(39.11)	(150.04)	(272.13)	(255.51)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(9.32)	3.24	(36.81)	(4.89)	(214.43)	(210.78)	(54.05)	(54.83)	(20.00)	(178.01)	(194.06)	(178.85)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(22.03)	(9.48)	(36.81)	(43.04)	(214.43)	1,231.83	(49.79)	(32.38)	(32.80)	(121.23)	(224.83)	1,221.99
6	Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	6,378.90	-	-	-	-	-	5,796.20
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)	,	-	-	-	-	-		-	-	,	-	-
	(a) Basic (Rs.)	(0.09)	0.03	(0.36)	(0.05)	(2.09)	(2.06)	(0.53)	(0.53)	(0.20)	(1.74)	(1.89)	(1.74)
	(b) Diluted (Rs.)	(0.09)	0.03	(0.36)	(0.05)	(2.09)	(2.06)	(0.53)	(0.53)	(0.20)	(1.74)	(1.89)	(1.74)

### Notes:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the above quarterly and nine monthly results are available on the stock exchange website: www.bseindia.com and also on the Company's Website www.sunilhealthcare.com. The same can also be accessed by scanning the gives quick Response (QR) Code



**Particulars** 

Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)

Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)

Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)

Total Comprehensive Income for the period (after tax)

6 Equity Share Capital (Face value of share is Rs. 10/- each)

Reserves (excluding Revaluation Reserves as per Financial

Earnings per share (EPS) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)

Total Income from operations (Net)

Statements of previous year)

**MODI RUBBER LIMITED** 

Website: www.modirubberlimited.com Email: investors@modigroup.net Phone: +91-11-4161 9905

Unaudited

125.35

(419.22)

(419.22)

(317.21)

(506.49)

2,504.05

N.A

**STANDALONE** 

Unaudited

79.69

1,635.51

1,635.51

1,353.15

2,863.93

2,504.05

N.A

31-Dec-24 30-Sep-24

Anil Khaitan **Chairman Cum Managing Director** DIN 00759951

CIN: L25199UP1971PLC003392, Registered Office: Modinagar - 201204 Dist. Ghaziabad (U.P.), Corporate Office: 4-7C, DDA Shopping Centre, New Friends Colony, New Delhi 110025

QUARTER ENDED

31-Dec-23

Unaudited

(205.53)

(205.53)

(371.92)

(151.11)

2,504.05

N.A

70.55

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

31-Dec-24

Unaudited

1,031.76

398.98

398.98

619.11

436.41

N.A

The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on February 14th, 2025. The Statutory Auditors of the Company have carried out an

2,499.55

CONSOLIDATED

Unaudited

650.18

913.22

913.22

632.25

2,653.59

2,499.55

N.A

30-Sep-24 31-Dec-23

Unaudited

722.30

694.85

694.85

558.71

962.64

N.A

2,499.55

Paul Merchants FINANCE PRIVATE LIMITED

Notice is hereby given for the information of all concerned, that Gold ornaments pledged with the under mentioned branches of the company under respective loan numbers, which were overdue for redemption and which have not been redeemed by the concerned customers so far in spite of repeated notices by the company, will be auctioned at the concerned branch offices of the

company on **Thursday 27th February, 2025** as per the following details GOLD AUCTION NOTICE

1. Kartar Nagar Branch - Paul Merchants Finance Pvt. Ltd. J-33. Main Road. Kartar Nagar. 4Th Pusta. Delhi. Pin code - 110053. ione- 950146626 Loan Number - 209210000001129, 209210000001133, 209210000001151, 209210000001156, 209210000001215, 209210000001216, 209210000001061, 209210000001050, 209210000001051, 209210000001060, 209210000001125, 209210000001134, 209210000001141, 209210000001144, 209210000001148, 209210000001154 209210000001155, 209210000001174, 209210000001183, 209210000001190, 209210000001236, 20921000001238, 209210000001284, 209210000000333, 209210000000333 09210000000346, 209210000000373, 209210000000381, 209210000000387, 20921000000405, 209210000000415, 20921000000416, 209210000000424, 209210000000434 209210000000441, 209210000000442, 209210000000443, 209210000000447, 209210000000450, 209210000000458, 209210000000492, 209210000000493, 209210000000532 209210000000540 209210000000549 209210000000550 209210000000553 20921000000559 209210000000573 209210000000576 209210000000578, 20921000000601, 20921000000608, 209210000000612, 209210000000621, 209210000000623, 209210000000624, 20921000000629, 209210000000630, 209210000000645, 209210000001045, 209210000001064, 209210000001065, 209210000001066, 209210000001070, 20921000001087, 20921000001090, 209210000001091209210000001093, 209210000001112, 209210000001117, 2092100000001192, 209210000001237, 209210000001314, 209210000001345, 209210000001351, 2092100000001357 (Time

2. Kirari Branch - Paul Merchants Finance Pyt. Ltd. Khasra No. 1012. Suleman Nagar, Kirari-Delhi, Pin code - 110086, Phone - 8968866676 Loan Number - 211210000000461 211210000000466, 211210000000491, 211210000000496, 211210000000524, 211210000000450, 211210000000453, 211210000000455, 211210000000459, 211210000000460, 211210000000473. 211210000000475. 211210000000486. 211210000000490. 211210000000503. 211210000000506. 211210000000507. 211210000000094. 211210000000100. 211210000000106, 211210000000109, 2112100000000113, 211210000000139, 211210000000145, 211210000000155, 211210000000163, 211210000000173, 21121000000019 211210000000448, 211210000000516, 211210000000539, 211210000000546, 211210000000560, 211210000000561, 211210000000562, 211210000000563 (Time 11:00 AM).

5.Hohan Garden- Delhi Branch - Paul Merchants Finance Pvt. Ltd, Ground Floor, Plot No.8,9,F- Block, Mohan Garden, New Delhi . Pin code - 110059. Phone - 8264133393 202210000000723, 202210000000742, 202210000000746, 202210000000754, 202210000000757, 20221000000076, 202210000000804, 202210000000815, 202210000000302 202210000000360, 202210000000380, 202210000000383, 2022100000000404, 202210000000407, 202210000000410, 202210000000421, 202210000000619, 202210000000621 202210000000643, 202210000000709, 202210000000768, 202210000000802 (Time 11:00 AM).

4. Najafgarh Branch - Paul Merchants Finance Pvt. Ltd, Ground Floor, Rz3, B Block, Old Roshanpura, Najafgarh, South-West Delhi . Pin code - 110043. Phone - 8427733393 Lean Number - 203210000000815, 203210000000816, 203210000000817, 203210000000830, 203210000000854, 203210000000813, 203210000000827, 203210000000828 203210000000894, 203210000000895, 203210000000896, 203210000000897, 203210000000899, 203210000000908, 203210000000343, 203210000000354 203210000000357, 203210000000361, 203210000000368, 203210000000369, 203210000000388, 203210000000407, 203210000000408, 203210000000407 203210000000426, 203210000000437, 203210000000441, 203210000000450, 203210000000469, 203210000000470, 203210000000473, 203210000000478 203210000000483, 203210000000485, 203210000000487, 203210000000493, 203210000000494, 203210000000515, 20321000000556, 203210000000770 203210000000787, 203210000000789, 203210000000793, 203210000000806, 203210000000805, 203210000000806, 203210000000808, 203210000000819, 203210000000839, 203210000000877, 203210000000880, 203210000000923, 203210000000933, 203210000000934, 203210000000937 (Time 11:00 AM).

5. Sonia Vihar- Delhi Branch - Paul Merchants Finance Pvt. Ltd, Property No.D-296, Illrd Pusta, Main market, Soniavihar, Delhi. Pin code - 110094. Phone - 8699033393 Loan Number - 197210000001214, 197210000001252, 197210000001253, 197210000001278, 197210000001286, 197210000001286, 197210000001296, 197210000001426, 197210000000548, 197210000000549, 197210000000564, 197210000000576, 197210000000597, 197210000000612, 197210000000626, 197210000000678, 197210000000679, 197210000000699, 197210000000700, 197210000001244, 197210000001387, 197210000001400, 197210000001457, 197210000001481 (Time 11:00 AM).

It may please be noted that if the auction does not get completed on the above stated day due to any reason, the same will be conducted on O6th Ma place and time without any further notice.

Note: Concerned customers can get the ornaments released before the auction date.

Note: Paul Merchants Finance Private Limited, on its sole discretion has the authority to remove any of the ornaments under any loan account from the auction list withou

Note: Bidders are requested to produce Identity Card, PAN Card & TIN Number in case of registered dealers. Successful bidder shall be requested to transfer the full auction amount to the company by RTGS/any other permitted mode immediately

Paul Merchants Finance Pvt. Ltd.

Place: Chandigarh

For any clarification regarding the above notice, please contact at 0172-5041717 or the concerned branch

Date: 15.02.2025

### NERES XVI POWER TRANSMISSION LIMITED

M/s. NERES XVI Power Transmission Limited having its registered office at Core-4, Scope Complex 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003 intends to apply to the Government of India to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and other works to be followed by commissioning, operation. Maintenance and other works for the following transmission scheme.

## Name of the Transmission Scheme:

Transmission Scheme for North Eastern Region Expansion Scheme-XVI (Neres-XVI) Works Covered under

- Establishment of Gogamukh 400/220/132 kV substation
- 2. Extension works at Geruamukh (Arunachal Pradesh) 132 kV S/S
- 3. Gogamukh (ISTS) Geruamukh (Arunachal Pradesh) 132 kV D/C (Zebra) line
- 4. LILO of One D/C line (ckt-1 & ckt-2 of line-1) of Subansiri Biswanath Chariali 400 KV (Twin Lapping) 2X D/C lines at Gogamukh S/S

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, towns and cities:

Under STATE - Assam

**Under District Dhemaii** 

Gogamukh Tehsil Naharbari, FS Grant, GT No 19FS, Garaimari Bongali, Amguri No 67, No 1/2 Chahmyadee, Latakgaon, lathiagaon, Purana Parghat Gaon, Lathia, Gogamukh No 1, Lagosung Kachari, Dipa NC, Chomanigaon, Tingirigaon, Baligaon, Naharbari Kora Chuk. Majgaon, Gogamukh, Amlapati, Chengmari, Napan Baligaon, Newargaon Gogamukh, Jilikpathar, Pamua Gogamukh, Bhebeli Hamabaigaon, Mainpara, Rangajangaon, Jyotishpur, Kayen Chetigaon, Garparagaon, Tarajan Nepaligaon, kachuatati No. 2, Kachuatati Mejgaon, Brahmagaon, Mohri, Okhamati, Kaligaon, Naharjan, Kanuaparajan, Nijaypur, Bishmpur, Bagchok Sonwalgaon, Naharbati, Halakbari, Uriyamguri, Rajgarhli, Shantipur, Pichala, Changlisuti No. 1, Salakhbari mirgaon, Rajgarh, Khakshpur, New Chauldhora, Geruamukh, Geuka, Ghasigaon, Kaikshpur.

Under STATE - Assam

Under District Lakhimpur

Kadam Tehsil Pirikgaon, Dhipagaon, Uriyamguri, Uriyamguri Baligaon, Laga Chuk Kacharigaon, Chauldhua Baligaon, Baginadipam, Rupanigaon, Thekagurigaon, Khagari, Khatalkguri, Purana Parghat, Kalitagaon, Dutgaon, Karkani kathangaon, Ahatguri, Haldihati, Bharatpur, Bhimpara Chhapari, Dhanpur, Bakulbari, Barbali, Katori Chhapri, Ghagarnagar, Subansirigaon, Rupahigaon, Rupahi, Dholbasti, Pathalipam tea Garden, Rupahigaon kuhiarbari, Gohaingaon, Shantipur Jorhatia, Chauldhoaghat, Gogamukh Nagaon, Milanpur, Nagaon, Adorsha, Sonapur No. 1, Sonapur No. 2, Namghar, Sonapur Majegaon, Pachmail, Tarajan, Tarajan Nepaligaon.

Under STATE - Arunachal Pradesh

Under District - Kamle

Dollungmukh Tehsil Kolaptoker, Kaloptor, Rikgu Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation/representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarifications please contact:

Name: Dhurjyoti Chaliha (Vice President)

Office Address: Chandrarup, House No-02, Bishnu Path, Ghoramara Chariali, Guwahati Assam-781028

**NINE MONTHS ENDED** 

CONSOLIDATED

31-Dec-23

Unaudited

1,699.39

1,966.34

1,966.34

1,237.06

1,828.98

2,499.55

N.A

31-Dec-24

Unaudited

2,216.23

2.052.41

2,052.41

1,929.94

4,797.28

2,499.55

N.A

Email Address: dhurjyoti.chaliha@techno.co.in Phone No.: 8011187572

Mr. Dinesh Parakh

(Amount in Lacs)

31-Mar-24

Audited

2,243.67

2,607.88

2,607.88

1,552.79

1,654.94

2,499.55

N.A

YEAR ENDED

STANDALONE CONSOLIDATED

31-Mar-24

**Audited** 

274.57

3,797.79

3,797.79

2,856.13

2,896.63

2,504.05

N.A

Place: Gurugram Date: 12.02.2025

**STANDALONE** 

31-Dec-24

Unaudited

276.30

980.15

980.15

728.79

2,988.37

2,504.05

N.A

31-Dec-23

Unaudited

197.88

3,091.08

3,091.08

2,504.84

2,889.61

2,504.05

N.A

Director, NERES - XVI [Name and designation of the authorized signatory]

### PUBLIC NOTICE Housing Society Ltd., H.No. 22/2 Narela Road, Near Trishul Soap

Place: New Delhi

Date: 13/2/2025

Factory, Vijay Nagar, Bawana, Delhi-110039 n pursuance to rule 19(2) of DCS rules 2007, it is to inform publicly that following member of Shahnaz CGHS Ltd. (Regd.No. 746) have resigned from the memb of the society i.e.1) Ms.Sarita Goyal(M.No 117), 2) Ms. Sharmila Taneja (M.No. 152) 3) Sh. Jitender Drall (Nominee of Late Randhir Singh (M.No. 189),4)Ms. Deepa Gupta (M.No. 193) and 5) Ram Prakash (M.No.142). Further they have been issued account payee cheque/Bankers Cheque for their deposited amount. if anyone have any objections he/she may file his/her objection in the office of the RCS, Parliament Street, New Delhi or at society office i.e.H.No.22/2 Narela Road, Near Trishul Soap Factory Vijay Nagar, Delhi-110039 within 7 day fron date of publication of the public no

### Sd/- President. Shahnaz CGHS Ltd **PUBLIC NOTICE**

No. 3GF, Block-D-7. Sector-71, Noida (Scheme Code-1999-2000(H) (01) Distt. Gautam Budh Nagar, (U.P.) had sold the said property on General Power of Attorney basis to the following person(s) General Power of Attorney was executed on in favour of Mr. Ajay Kumar Sharma S/o Late Sh. R.P. Sharma R/o M-9, LIC Colony, Dilshad Garden, Delhi-110095 which is registered and the Agreement to Sell was not registered. Because the Agreement to Sell is not registered. Because the Agreement to Sell is not registered. Because the Agreement to Sell executed, so it is informed to all concern that the said Property No. EWS Flat No. 3GF. Block-D-7. Sector-71, Noida (Scheme Code-1999-2000(H) (01) Distt. Gautam Budh Nagar. (UP) is going to be transferred in favour of Mr. Raj Bahadur Sharma S/o Sh. Raghunath Prasad Sharma R/o D-7/19, Shv Shakit Apartment, Sector-71, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, (U.P.). If anyone has/have any objection he/she may file his/her objection alongwith the sufficient proof in the Housing Department of the Noida Authority within 15 days from the date of publication of this notice.

## NOTES:

Place: New Delhi

8

No.

- (a) Basic and Diluted EPS (before exceptional Items) (in Rs.) (1.27)5.40 (1.49)2.48 2.53 2.23 2.91 10.00 7.72 4.95 11.41 6.21 (b) Basic and Diluted EPS (after exceptional Items) (in Rs.) (1.27)5.40 (1.49)2.48 2.53 2.24 2.91 10.00 7.72 4.95 11.41 6.21 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/
- audit of the aforesaid results. 3. Previous quarter/ year end figures have been rearranged and / or regrouped, wherever necessary, to make them comparable with those of the current quarter/ year end.

Annual Financial Results are available on the stock exchange website, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company website www.modirubberlimited.com.

Date: 14th February, 2025

By order of the Board Sd/ Piya Modi Whole Time Director DIN-03623417

# एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

मैसर्स एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसिमशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 में है, भारत सरकार से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे सभी शक्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन करना चाहता है। विद्युत संचरण के लिए विद्युत लाइनें या विद्युत संयंत्र लगाने के लिए या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास आवश्यक कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोन या टेलीग्राफिक संचार के प्रयोजन के लिए। सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट, या इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित की जाने वाली टेलीग्राफ लाइनें और सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, स्थापना और अन्य कार्य करेगी, जिसके बाद कमीशनिंग, संचालन होगा। निम्नलिखित ट्रांसमिशन योजना के लिए रखरखाव और अन्य कार्य

### ट्रांसमिशन योजना का नामः

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XVI (एनईआरईएस-XVI) के लिए ट्रांसिमशन योजना इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्य

- गोगामुख 400 / 220 / 132 केवी सबस्टेशन की स्थापना
- 2. गेरूआमुख (अरुणाचल प्रदेश) 132 केवी एस / एस पर विस्तार कार्य
- 3. गोगामुख (आईएसटीएस) गेरूआमुख (अरुणाचल प्रदेश) 132 केवी डी / सी (जेबरा) लाइन
- सुबांसिरी बिरवनाथ चरियाली 400 केवी (टिवन लैपिंग) की एक डी/सी लाइन (लाइन-1 के सीकेटी-1 और सीकेटी-2) का लिलो गोगामुख एस / एस पर 2 डी / सी लाइनें

योजना के अंतर्गत शामिल ट्रांसिशन लाइन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, ऊपर, चारों ओर और उनके बीच से गुजरेगी

### असम राज्य – के अंतर्गत

### जिला धेमाजी के अंतर्गत

गोगामुख तहसील नहरबाड़ी, एफएस अनुदान, जीटी नंबर 19एफएस, गैराईमारी बोंगाली, अमगुरी नंबर 67, नंबर 1/2 चाहम्याडी, लटकागांव, लाठियागांव, पुराना परघाट गांव, लाठिया, गोगामुख नंबर 1, लागोसुंग कछारी, दीपा एनसी, चोमनिगांव, तिंगरीगांव, बलिगांव, नाहरबाड़ी कोरा चौक। मझगांव, गोगामुख, अमलापति, चेंगमारी, नपन बालीगांव, नेवरगांव गोगामुख, जिलिकपाथर, पमुआ गोगामुख, भेबेली हमाबाईगांव, मैनपारा, रंगजंगांव, ज्योतिषपुर, कायेन चेटीगांव, गरपारागांव, ताराजन नेपालीगांव, कचुआटी नं. २, कचुअट्टी मेजगांव, ब्रह्मगांव, मोहरी, ओखामती, कालीगांव, नाहरजन, कनुआपराजन, निजयपुर, भीष्मपुर, बागचोक सोनवलगांव, नाहरबाटी, हलाकबारी, उरियामगुरी, राजगढ़ली, शांतिपुर, पिचाला, चांग्लिसुति नं 1, सलाखबारी मिरगांव, राजगढ़, खखशपुर, न्यू चौलधोरा, गेरुआमुख, गेउका, घासीगांव, कैकशपुर

### असम राज्य – के अंतर्गत

### जनपद-लखीमपुर के अंतर्गत

कदम तहसील पीरिकगांव, ढिपागांव, उरियामग्री, उरियामग्री बालीगांव, लागा चुक कछारीगांव, चौलधुआ बालीगांव, बागिनादीपम, रूपानीगांव, थेकागुरीगांव, खगड़ी, खटालकगुरी, पुराना परघाट, कलितागांव, दुतगांव, करकनी कठनगांव, अहातगुड़ी, हल्दीहाटी, भरतपुर, भीमपारा छापरी, धनपुर, बाकुलबाड़ी, बरबली, कटोरी छापरी, घघरनगर, सुबनसिरीगांव, रूपाहीगांव, रूपाही, ढोलबस्ती, पथलिपम चाय बागान, रूपाहीगांव कृहियारबाडी, गोहाईगांव, शांतिपुर जोरहाटिया, चौलघोघाट, गोगामुख नागांव, मिलनपुर, नागांव, आदर्श, सोनपुर नं. 1, सोनपुर नं. 2, नामघर, सोनपुर मझेगांव, पचमेल, ताराजन, ताराजन नेपालीगांव

### अरुणाचल प्रदेश राज्य – के अंतर्गत

**डोल्लुंगमुख तहसील** कोलाप्टोकर, कालोप्टोर, रिक्गु मार्ग संरेखण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। आम जनता को लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर प्रस्तावित ट्रांसिमशन सिस्टम पर अवलोकन / प्रतिनिधित्व करने के लिए नोटिस दिया जाता है। अधिक विवरण और स्पष्टीकरण के लिए कपया संपर्क करें

नामः धुर्जयोति चालिहा (उपराष्ट्रपति)

कार्यालय का पताः चंद्ररूप, मकान नंबर-02, विष्णु पथ, घोरमारा चारियाली, गुवाहाटी असम-781028

ईमेल पताः dhurjyoti.chaliha@techno.co.in फोन नं. 8011187572

स्थानः गुरुग्राम



श्री दिनेश पारख निदेशक, एनईआरईएस - XVI (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

# गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में छह महिलाओं समेत आठ लोग दबोचे

## 🛡 आरोपियों से 25 मोबाडल फोन व वार्डफार्ड डोंगल बरामद

### पायनियर समाचार सेवा। गरुग्राम

लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पलिस ने भंडाफोड किया। मौके से छह महिलाओं समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 25 मोबाइल फोन व एयरटेल का वाईफाइ डोंगल बरामद हुआ है।

पुलिस के अनुसार चार फरवरी को मानेसर थाना साइबर अपराध में एक व्यक्ति ने लोन दिलाने के नाम से हुई ठगी की शिकायत दी थी। पीड़ित



लोन दिलाने के नाम पर कॉल सेंटर से ठगी करने के आरोपी।

ने कहा कि उसके पास एक्सिस बैंक का प्रतिनिधि बनकर अलग-अलग नम्बर से कॉल आई। लोन देने के नाम पर लगभग 18 हजार रुपये की ठगी उसके साथ कर ली गई। शिकायत पर थाना साइबर मानेसर ने

टीम ने तकनीकी सहायता से इस कॉलोनी प्रहलादपुर, नई दिल्ली,

धोखाधडी/ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड किया। 13 फरवरी को बदरपुर से आठ आरोपियों को काब् किया। आरोपियों की पहचान राज मानेसर साइबर अपराध थाने की प्रदेश) वर्तमान निवासी विश्वकर्मा

रोहित कुमार निवासी मितल कॉलोनी प्रहलादपुर, नई दिल्ली, रोजी निवासी गांव याकूबपुर जिला ओरैया (उत्तर-प्रदेश) वर्तमान निवासी बदरपुर, मोलरबंद एक्सटेंशन, नई दिल्ली, रुबी निवासी शिव दुर्गा विहार सूरजकुंड जिला फरीदाबाद, सीमा सिन्हा निवासी शिव दुर्गा विहार, स्रजकुंड जिला फरीदाबाद, ज्ञानती निवासी चूरिया मोटला, लेखंड ओखला दिल्ली, मंतशा निवासी पल पहलादपुर, बदरपुर, दिल्ली व शायरा निवासी लककरपुर जिला फरीदाबाद के रूप में हुई।

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी लोगों के पास फोन करके लोन दिलाने के नाम पर विभिन्न प्रकार के चार्ज के रूप में रुपए ट्रांसफर कराकर ठगी की वारदातों को

## पुलिस ने दो बच्चों को ढंढकर परिजनों को सौंपा


**गरुग्राम।** स्थानीय पलिस ने गायब हए दो बच्चों को सक्शल ढुंढकर परिजनों के हवाले किया। काफी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद पुलिस को बच्चों के माता-पिता का पता चला। फिर दो वर्षीय बच्चे का नाम जौईन निवासी गोड्डा (झारखंड) व एक वर्षीय बच्चा बिहार का है। दोनों बच्चों का वर्तमान में गांव नाहरपुर मानेसर में रहने का पता चला। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक व दो साल के दो बच्चे गांव नाहरपर में लावारिस घम रहे हैं। पुलिस ने दोनों बच्चों को उनके घर पहुंचाने के उद्देश्य से बच्चों के माता-पिता व घर का पता करने के प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद बच्चों के माता-पिता का पता चला। उनके माता-पिता मानेसर के गांव नाहरपुर में रह रहे हैं। पुलिस टीमों द्वारा दोनों बच्चों को सक्शल उनके परिजनों तक पहुंचाया। दोनों के माता-पिता ने पुलिस का आभार जताया।

# कांग्रेस ने गुरुग्राम के 36 वार्डी को चार जोन में बांटाः बुवानीवाला

# 🛡 हर जोन में बनाया गया है एक-एक इंचार्ज

# 🛡 विधानसभा शहरी व ग्रामीण कॉर्डिनेटर चारों जोन में समन्वय करेंगे

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम



बुवानीवाला ने कहा कि हर चुनाव की तरह नगर निगम का चुनाव भी कांग्रेस के लिए



प्रत्याशी रहे वर्धन यादव को इंचार्ज बनाया गया है। वार्ड-10 से 18 तक के दूसरे जोन में प्रदीप जेलदार को, वार्ड 19 से 27 तक तीसरे जोन में गरुग्राम विधानसभा से प्रत्याशी रहे मोहित ग्रोवर को और वार्ड-28 से 36 तक तीसरे जोन में पूर्व मंत्री सुखबीर सिंह कटारिया को इंचार्ज बनाकर चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस के गृडगांव विधानसभा शहरी कॉर्डिनेटर पंकज डावर व ग्रामीण कॉर्डिनेटर विरेंद्र सिंह यादव (बिल्लु) चारों जोन में समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे।

# भारत फिर बनेगा वैश्विक महाशक्ति 🛡 एक प्राइवेट यनिवर्सिटी के

# दीक्षांत समारोह में धर्मेंद्र प्रधान बोले, किसी देश के पास नहीं भारत जितनी अथाह युवा शक्ति

### पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी में भारत फिर से वैश्विक महाशक्ति बनने जा रहा है। आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्द हम तीसरी पायदान पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के सार्थक, सकारात्मक व दीर्घकालिक निर्णयों-कदमों से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र एवं विश्व की सर्वाधिक समृद्ध इकोनॉमी बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री गुरुग्राम में एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे।

दीक्षांत समारोह में दिल्ली एवं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के प्रेसीडेंट रोहन जेटली दीक्षांत समारोह में गेस्ट आफ ऑनर के रूप में शामिल हुए। पद्मभूषण राम



गांधीवादी स्कालर डा. शोभना राधाकृष्ण को डी. लिट की उपाधि प्रदान करते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बहाद्र राय भी इस दौरान मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि युवा शक्ति के बल पर भारत विकास की तेज दौड़ लगाएगा। आज भारत की 142 करोड़ की आबादी में से 68 करोड़ से अधिक की आयु 25 वर्ष से कम है। इतनी अथाह यवा शक्ति विश्व के और किसी देश के पास नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज डिग्री लेने वाले छात्र 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खुद का रोड मैप बनाएं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सिलिकॉन वैली का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया की हर इकोनॉमी के पीछे कोई न कोई विश्वविद्यालय अवश्य होता है। आज री स्किलिंग और

अपस्किलिंग का दौर है।

# ATS HEIGHTS PRIVATE LIMITED (Under CIRP)

Regd. Off.: 711/92, Deepali, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: U70200DL2010PTC205410; Phone No.: 0120-7111500; Fax No.: 0120-7111550 Email Id.: compliances@atsgreens.com; Website: www.atsgreens.com **ANNEXURE I** 

Format for publishing financial results in newspapers [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

### (Amounts in INR Lakhs, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	For the Quarter Ended 31.12.2024	For the Quarter Ended 31.12.2023	For the Yea ended 31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	106.49	0.39	4.26
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	18.82	(7.07)	(49.47
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	18.82	(7.07)	(49.47
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	17.82	(5.23)	(527.83
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	17.82	(5.23)	(527.83
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve )	(3,346.92)	(2,767.78)	(3,267.57
8	Securities Premium Account	-	2	- 1
9	Net worth	(3,345.92)	(2,766.78)	(3,266.57
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	233,446.74	236,920.59	233,446.7
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	020	-	72
12	Debt Equity Ratio	69.77	(71.82)	(71.4
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
13	1. Basic:	178.24	(52.26)	(5,278.33
	2. Diluted:	178.24	(52.26)	(5,278.3
14	Capital Redemption Reserve	-	2	-
15	Debenture Redemption Reserve	(10)	G	
16	Debt Service Coverage Ratio	0.0001	(0.0006)	(0.0002
17	Interest Service Coverage Ratio	(#)	(0.050)	(1.180

Place: Noida

Date: 13.02.2025

a)The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity

b) For the other line items referred in the Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the c)# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules

whichever is applicable.

Kashinath Jha Santosh Kumar sd/-Director Directo

**Gaurav Katiyar** 

Interim Resolution Professional

Reg. No.: IBBI/IPA001/IP-P00209/2017-18/10409

# कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड

रजि. कार्यालयः प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 कॉपरिट पहचान सं. L70109DL1980PLC169318

फोनः - 7303495374, ई-मेल-camaccommercial@gmail.com, वेबसाइट - www.camaccommercial.com 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

		रटैंडअलोन								
क्र सं	विवरण	fe	तेमाही समाप्ति	,,,,,,,	नौ माह	वर्ष समाप्ति				
		31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)		31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)			
1.	संचालन से कुल आय	14.79	174.18	167.23	212.39	271.83	296.32			
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ ∕(ज्ञाने) (कर पूर्व और आपवादिक मद)	2.30	158.83	130.59	167.77	91.99	92.89			
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व और आपवाविक मद)	2.30	158.83	130.59	167.77	91.99	92.89			
4.	कर पश्चात् अविध हेतु शुद्ध लाम/(हानि) और आपवादिक मदे	1.94	136.26	115.78	144.13	77.92	93.48			
5.	अवधि हेतु कुत व्यापक आय [अवधि हेतु ताम/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	9,308.53	39,765.07	(2,704.81)	49,233.01	(3,755.75)	(4,842.81)			
6.	इविवदी शेयर पूंजी	88.28	88.28	88.28	88.2a8	88.28	88.28			
6.	अन्य इक्विटी						1,68,323.30			
8.	प्रत्येक 10 रुपये का प्रति शेयर आय (क) मूलभूत (रु. में)	0.22	15.43	13.12		8.83	10.59			

परिणामों जी लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 14 फरवरी, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनमोदित और रिकॉर्ड प

ाजपा पंचा है। उपरोक्त 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए सेबी (लिस्टिंग दायिच और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सकेजों के साथ दायर किए गए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रास्प का सारांश है। कंपनी के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रास्प कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे 14 फरवरी, 2025 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी भेजा गया है।



(मोनिशा सराफ निदेशर

डीआईएनः 07503642

# कोस्को (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएनः L25199DL1980PLC010173 रजि. कार्यालयः 2/8, रूप नगर, दिल्ली-110007 वेबसाइटः www.cosco.in ईमेलः mail@cosco.in टेलीफोनः 91-11-23843000, फैक्सः 91-11-23846000

दिनांक 31.12.2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेत स्टैंडअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

_		f	तेमाही समापि	त	नौ माह	वर्ष समाप्ति	
<b>화</b> .	विवरण	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
सं.	1991-1	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	संचालनों से कुल आय	4,097.44	3,830.53	4,066.23	12,819.08	12,802.54	17,749.68
2	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ	45.30	28.21	110.18	289.29	355.59	469.06
3	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ	36.36	19.88	115.27	209.40	235.43	320.79
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात्) और अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	35.15	20.48	116.02	209.40	237.68	325.14
5	इक्किटी शेयर पूंजी	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10	416.1
6	अन्य इक्विटी						4,564.57
7	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रु. का )						
	(क) मूलभूत (रु.)	0.87	0.48	2.77	5.03	5.66	7.7
	(ख) तरलीकृत (रु.)	0.87	0.48	2.77	5.03	5.66	7.7

1 उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किए गए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों (www.bseindia.com/corporates) और कंपनी की वेबसाइट www.cosco.in पर उपलब्ध है।

2 उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किया गया है।



दिनांक: 13.02.2025

बोर्ड के आदेश द्वारा कोस्को (इंडिया) लिमिटेड देविन्दर कुमार जैन प्रबंध निदेशक और सीईओ डीआईएनः 00191539

# युवा पगड़ी बंधवाकर ले रहे सेल्फी विद हुक्का

सुरजकुंड। सुरजकुंड मेले में आपणा घर में लगी विरासत प्रदर्शनी में हरियाणवी पगड़ी के प्रति मेला में आने वाले पर्यटकों का पूरा फोकस बना हुआ है। पगड़ी बंधवाने के साथ-साथ हक्का के साथ सेल्फी लेने के लिए दिनभर पर्यटकों में होड सी लगी रहती है। हरियाणा का आपणा घर में विरासत की ओर से जो पारंपरिक परिधानों की प्रदर्शनी लगाई गई है, वहां पर पगडी बंधाओ, फोटो खिंचाओं के माध्यम से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हरियाणा की पगड़ी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।

इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए हरियाणवी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाले एवं विरासत के निदेशक डा. महासिंह पूनिया ने बताया कि हरियाणा की पगड़ी को सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में खूब लोकप्रियता हासिल हो रही है। पर्यटक पगडी बांधकर हक्के के साथ सेल्फी, हरियाणवी झरोखें से सेल्फी, हरियाणवी दरवाजों के साथ सेल्फी. चारपाई व आपणा घर के दरवाजों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं।

## ओडिसा के कलाकारों ने नृत्य व सेना पराक्रम का अद्भुत नजारा किया पेश

**सूरजकुंड।** सूरजकुंड शिल्प मेला की हर संध्या को शानदार बनाने के लिए सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसमें हर रोज देश-विदेश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियां दर्शकों को खूब लुभा रही हैं।

इसी कड़ी में बड़ी चौपाल पर सांस्कृतिक संध्या में इस बार के मेले के थीम स्टेट ओडिसा के कलाकारों ने नृत्य और सेना पराक्रम का अद्भुत नजारा पेश कर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। ओडिसा कलाकारों के समूह ने बड़ी चौपाल के मंच पर तलवारबाजी से साहसी सेना के पराक्रम को दर्शाया। इनकी प्रस्तुति इतनी बेहतरीन रही की पंडाल में सभी लोगों ने तालियों से इनका अभिवादन किया। इनके अलावा ओडिसा के शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियों को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। महिला कलाकारों के सामृहिक नृत्य ने सभी को ओडिसा की संस्कृति से रूबरू कराया। इन नृत्यों में संबलपुरी और गोटीपुआ नृत्य की प्रस्तुति शानदार रही। बड़ी चौपाल पर सांस्कृतिक संध्या में ओडिसा के कलाकारों ने देर रात तक समा बांधे रखा।